

**CLASS: 3**

<b>SUBJECT</b>	<b>HOME WORK</b>
<b>ENGLISH</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Write 10 words by using letters of English alphabets from A to L.</li><li>2. Write any 5 names of your family members, 5 names of known places and 5-5 names of things and animals around you.</li></ol>
<b>HINDI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) स्वरों की मात्राओं की पहचान करें और नोटबुक में लिखें।</li><li>2) आपके आसपास जो भी चीजे है उनमे से कोई भी 20 चीजों के नाम हिन्दी ओर अंग्रेजी मे लिखो ।</li><li>3) अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिखें।</li><li>4) स्वरो और व्यंजनो को नोटबुक मे 5 बार लिखें और याद करें।</li></ol>
<b>MATHS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Write and learn table from 2 to 12.</li><li>2. Make a list on a chart of different shapes you find in your home along with that thing name. Look for 2D shapes (triangle, rectangle, square etc) and 3D shapes (cube, cuboid, sphere etc).</li><li>3. Do 5 statement based questions of addition and subtraction on your own. (Questions of two steps calculations)</li></ol>
<b>EVS</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fill all states and capitals of India in a map.</li><li>2. Paste 5 leaves of different plants on A-4 size paper and write their names also.</li><li>3. Make a slogan poster for the safety of covid-19.</li><li>4. Categories the food on a chart which you are taking daily in your breakfast, lunch and dinner in energy giving food, protective food and body building food.</li></ol>